

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 107] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 21, 1970/फाल्गुन 30, 1891

No. 107] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 21, 1970/PHALGUNA 30, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March 1970

S. O. 1170:—In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules 1961, the following is published for general information :—

FORM 7B

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

[See Rule 10(1)]

By-election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Mysore (State).

Serial Number	Name of Candidate	Address of Candidate
(1)	(2)	(3)
1.	Patel, K. F.	Kajiri (Hunumanahatti) Ranibennur Taluk, Dharwar District.
2.	Sher, Khan Saheb	S/o Tafazul Hussain Khan, Post Malkhed, District Gulbarga.

PLACE : Bangalore.

DATE : 16th March, 1970.

K. S. THIMMAPPA GOWDA,
Returning Officer.

[No. 100/CS-My/6/69.]

By order,
A. N. SEN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1970

एस० नो० 1170.—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप-नियम (2) के अनुसरण में निम्नलिखित का प्रकाशन सर्व साधारण को सूचनार्थ किया जाता है :—

प्ररूप 7 ख

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10(1) देखिए]

मसूर विधान सभा के निर्वाचन सब्धों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन

क्रम संख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1.	पटेल, के० एफ०	कज्जरी (हनुमान हट्टी) रानीबेनुर तालुक, धारवार जिला।
2.	शेर खान साहिब	सुपुत्र तफजुल हुसैन खान, डाकघर मल्बेद, जिला गुल्बर्गा।

स्थान : बंगलौर।

तारीख : मार्च 16, 1970।

के० एस० थिम्मप्पा गाउडा,

रिटनिंग आफिसर।

[सं० 100/रा०स०—मसूर/6/69]

आदेश से,

ए० एन० सैन,

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।